



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

27 फाल्गुन 1937 (श10)  
(सं० पटना 221) पटना, बृहस्पतिवार, 17 मार्च 2016

---

वित्त विभाग

अधिसूचना  
15 मार्च 2016

सं० 1/स्था० (ले०से०)-02/2014-2124-वि०—राज्य सरकार के अधीन 22 नव स्थापित कोषागारों के लिए वरीय कोषागार पदाधिकारी/सहायक कोषागार पदाधिकारी के पद चिन्हित करने हेतु पूर्व के सभी 60 कोषागारों के लिए सृजित कोषागार पदाधिकारी के कुल 152 पदों का 82 कोषागारों के बीच पुनर्निर्धारण निम्नांकित वर्णन के आधार पर यथा परिशिष्ट-1 में वर्णित वरीय कोषागार पदाधिकारी के 41 पद, कोषागार पदाधिकारी के 41 पद एवं सहायक कोषागार पदाधिकारी का 70 पद कुल 82 कोषागारों के संदर्भ में पुनर्निर्धारित की जाती है।

2. पूर्व से कार्यरत 60 कोषागारों के लिए बिहार लेखा सेवा संवर्ग में वरीय कोषागार पदाधिकारी के 41 पद एवं सहायक कोषागार पदाधिकारी के 111 कुल 152 पद सृजित है। बिहार लेखा सेवा नियमावली, 2011 के अन्तर्गत सहायक कोषागार पदाधिकारी के स्वीकृत बल 111 एवं वरीय कोषागार पदाधिकारी के 41 स्वीकृत बल को कोषागारवार चिन्हित किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत कुल 60 कोषागारों की संख्या को देखते हुए प्रत्येक उप कोषागार के लिए एक-एक अर्थात् 19 तथा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, विकास भवन एवं निर्माण भवन काषागारों के लिए तीन-तीन (6X3=18), पटना समाहरणालय एवं सिंचाई भवन के लिए चार-चार (4X2=8) तथा 33 कोषागारों के लिए दो-दो (33X2=66) कुल 19+18+8+66=111 पद चिन्हित किया गया है। प्रत्येक जिला कोषागार के लिए एक-एक 38 एवं राज्य मुख्यालय कोषागार के लिए तीन पद कुल 41 पद चिन्हित किये जा चुके हैं। नये कोषागारों (कुल 22) का गठन पूर्व के कोषागारों के अवस्थिति एवं भौगोलिक क्षेत्रों को अलग कर नये कोषागार की स्थापना की

गयी है। कोषागार पदाधिकारी एवं सहायक कोषागार पदाधिकारी के उपलब्ध पदों को 82 कोषागारों के बीच पुनर्निर्धारण आवश्यक है।

3. सचिवालय स्तरीय तीन एवं जिला स्तरीय 38 अन्य कोषागारों में वरीय लेखा पदाधिकारी कोटि के पदाधिकारी वरीय कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य कोषागारों में बिहार लेखा सेवा के लेखा पदाधिकारी के मूल कोटि के लेखा पदाधिकारियों को कोषागार पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जा सकेगा। जिला एवं सचिवालय स्तरीय कोषागारों में सहायक कोषागार पदाधिकारी के पद पर मूल कोटि के लेखा पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जा सकेगा।

4. बिहार लेखा सेवा (संशोधन) नियमावली 2013 (वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 8398, दिनांक 16.08.2013) के तहत यह प्रावधान किया जा चुका है कि लेखा पदाधिकारी के अलावा वरीय लेखा पदाधिकारी को भी आवश्यकतानुसार गैर-जिला एवं गैर-सचिवालय कोषागारों में वरीय कोषागार पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जा सकेगा।

5. उपर्युक्त कंडिका-3 एवं 4 के आलोक में सभी सचिवालय स्तरीय कोषागार/जिला कोषागार/अनुमंडलीय स्तरीय कोषागार/प्रखंड स्तरीय कोषागार में वरीय कोषागार पदाधिकारी/सहायक कोषागार पदाधिकारी को पदस्थापित किया जा सकता है। बिहार लेखा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत मूल कोटि के 111 पद एवं वरीय कोटि के 41 पद कुल 152 पदों को परिशिष्ट-1 के अनुसार राज्य के 82 कोषागारों के लिए कर्णांकित है। भविष्य में यदि राज्य सरकार द्वारा नया कोषागार स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है तो संबंधित पैतृक जिला कोषागार से सहायक कोषागार पदाधिकारी का एक पद नवसृजित कोषागार में वित्त विभाग द्वारा स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

**राहुल सिंह,**

सचिव (व्यय)।

परिशिष्ट-1

नये कोषागारों के गठन के बाद कोषागारों में कोषागार पदाधिकारी/सहायक कोषागार पदाधिकारी के पदों की संख्या।

क्र०	कोषागार का नाम	वरीय कोषागार पदाधिकारी	लेखा पदाधिकारी मूल कोटि के कोषागार पदाधिकारी	सहायक कोषागार पदाधिकारी
1	2	3	4	5
1	औरंगाबाद	1	0	2
2	अररिया	1	0	1
3	अरवल	1	0	0
4	भभुआ (कैमूर)	1	0	1
5	बगहा	0	1	0
6	भागलपुर	1	0	2
7	बेगुसराय	1	0	3
8	भोजपुर	1	0	3
9	बांका	1	0	1
10	बेनीपुर	0	1	0
11	बाढ़	0	1	0
12	वीरपुर	0	1	0
13	बक्सर	1	0	1
14	दलसिंहसराय	0	1	0
15	बिहार भवन, नई दिल्ली	0	1	0
16	दरभंगा	1	0	2
17	दानापुर	0	1	0
18	दाउदनगर	0	1	0
19	मोतिहारी	1	0	3
20	फारबिसगंज	0	1	0
21	गोपालगंज	1	0	1
22	गया	1	0	2
23	हिलसा	0	1	0
24	झंझारपुर	0	1	0
25	जमुई	1	0	1
26	जहानाबाद	1	0	1
27	खगड़िया	1	0	1
28	किशनगंज	1	0	1
29	कटिहार	1	0	2
30	लखीसराय	1	0	1
31	लालगंज	0	1	0
32	मधुबनी	1	0	2
33	मधेपुरा	1	0	1
34	मुंगेर	1		2
35	महुआ	0	1	0
36	मोकामा	0	1	0
37	मसोढ़ी	0	1	0
38	मुजफ्फरपुर	1	0	3
39	नवगछिया	0	1	0
40	नालन्दा	1	0	2
41	निर्मली	0	1	0
42	नवादा	1	0	1
43	विकास भवन, पटना	1	0	2
44	निर्माण भवन, पटना	1	0	2
45	पुर्णियाँ	1	0	3

क्र०	कोषागार का नाम	वरीय कोषागार पदाधिकारी	लेखा पदाधिकारी मूल कोटि के कोषागार पदाधिकारी	सहायक कोषागार पदाधिकारी
1	2	3	4	5
46	पटना समाहरणालय, पटना	1	0	4
47	पटना सिटी	0	1	0
48	सिंचाई भवन, पटना	1	0	3
49	रोसड़ा	0	1	0
50	रोहतास, सासाराम	1	0	2
51	सहरसा	1	0	2
52	शिवहर	1	0	0
53	शेखपुरा	1	0	0
54	सीतामढ़ी	1	0	2
55	सुपौल	1	0	1
56	शेरघाटी	0	1	0
57	सारण	1	0	2
58	समस्तीपुर	1	0	2
59	सीवान	1	0	2
60	वैशाली	1	0	2
61	बेतिया	1	0	1
62	नरकटियागंज	0	1	0
63	डुमराँव	0	1	0
64	डिहरी	0	1	0
65	शाहपुर पटोरी	0	1	0
66	तेघड़ा	0	1	0
67	बारसोई	0	1	0
68	रजौली	0	1	0
69	राजगीर	0	1	0
70	पुपरी	0	1	0
71	टेकारी	0	1	0
72	धमदाहा	0	1	0
73	मढ़ौरा	0	1	0
74	महाराजगंज	0	1	0
75	त्रिवेणीगंज	0	1	0
76	सिकरहना	0	1	0
77	उदाकिशुनगंज	0	1	0
78	फूलपरास	0	1	0
79	रक्सौल	0	1	0
80	पालीगंज	0	1	0
81	जगदीशपुर	0	1	0
82	चकिया	0	1	0
	<b>कुल</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>70</b>

राहुल सिंह,  
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 221-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>